

COVID-19 परीक्षण के लिए अपील

1. हाल ही में, हांगकांग में थोड़े समय के दौरान कई पुष्टि COVID-19 मामले पाए गए थे।
2. जिले में संक्रमण श्रृंखला को जल्द से जल्द तोड़ने के लिए, सरकार द्वारा अनिवार्य परीक्षण नोटिस जारी किये जा रहे हैं। निर्दिष्ट भवनों में निर्दिष्ट समय के लिए मौजूद व्यक्तियों को एक निर्दिष्ट समय अवधि के अंदर अनिवार्य परीक्षण से गुजरना होगा। संक्रमण का जोखिम स्तर कम होने तक संबंधित सूची को लगातार अद्यतन किया जाएगा।
3. अनिवार्य परीक्षण नोटिस के तहत परीक्षण के अधीन व्यक्ति सामुदायिक केंद्र या मोबाइल नमूना संग्रह स्टेशनों या सामुदायिक परीक्षण केंद्रों में निःशुल्क परीक्षण करा सकते हैं। हांग-काँग, कौलून और नए क्षेत्रों में सामुदायिक परीक्षण केंद्र हैं। उदाहरण के लिए – केंद्र में याओ मा टेई हेनरी जी लियोंग युमतेई सामुदायिक केंद्र है।
4. अनिवार्य परीक्षण नोटिस के तहत परीक्षण के अधीन व्यक्तियों को मास्क पहनने और हाथ की स्वच्छता बनाए रखने के साथ निजी बीमारी की रोकथाम के उपाय करने चाहिए, अपने घर पर तब तक रहना चाहिए, और बाहर जाने से बचना चाहिए जब तक कि परीक्षण के परिणाम का पता न चल जाये।
5. कोई भी व्यक्ति जो परीक्षण नोटिस का पालन करने में विफल रहता है, तो इसे अपराध माना जायेगा और उस पर \$5,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है।
6. सरकार उन सभी व्यक्तियों से जिन्हें आपने स्वास्थ्य के संबंध में किसी प्रकार का संदेह है, या ऐसे व्यक्ति जिनहन संक्रामण का ज्यादा खतरा है (जैसे ऐसे व्यक्ति जो ऐसे स्थानों पर गए थे जहां महामारी का प्रकोप था) जल्दी ही परीक्षण करवाने आग्रह करती है, भले ही वो अनिवार्य परीक्षण के अधीन ना हो।
7. नवीनतम परीक्षण व्यवस्थाओं के लिए, कृपया सरकार की घोषणाओं के लिए बने रहें।
8. सरकार ने COVID-19 संक्रमण और स्वास्थ्य सलाह पर नवीनतम जानकारी तथा जनता की मदद करने के लिए विभिन्न समाचारों पर नवीनतम जानकारी हेतु एक "COVID-19 थीमैटिक वेबसाइट" (www.coronavirus.gov.hk) बनाई है।
9. नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिए जातीय अल्पसंख्यकों की सुविधा हेतु वेबसाइट की मुख्य सामग्री को नौ विभिन्न भाषाओं में अनुवादित किया गया है।
10. हमें COVID-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए हाथ मिलाना चाहिए या साथ आ जाना चाहिए।